

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक

24.11.2022

twitter-@rampurpolice
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

थाना मिलक- मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व जान से मारने की धमकी देने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

लालता प्रसाद पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम कूप थाना मिलक जनपद रामपुर आदि 04 अभियुक्तगण द्वारा विद्युत विभाग की टीम के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 03-10-2022 को थाना मिलक पर मु0अ0सं0-395/2022 धारा 332/353/504/308/506 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 24-11-2022 को थाना मिलक पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त केसर लालता प्रसाद उपरोक्त को नोराह तिराहे से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना गंज:-01 अद्द नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24-11-2022 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा आलम पुत्र छोटे निवासी मौहल्ला बजरिया खानशामा घेर आजम खाँ थाना गंज, रामपुर को बवनपुरी स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। इस सम्बंध में थाना गंज, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना टाण्डा:-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 गिरफ्तार

दिनांक 23-11-2022 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा राजेन्द्र पुत्र बेघराम तथा मेवाराम पुत्र रामप्रसाद निवासीगण मौहल्ला मरघटी कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुर को 20-20 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ बाबूल गार्डन के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना शहजादनगर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24-11-2022 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सिराज अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी नरखेडा थाना शहजादनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना सैफनी:-पिकअप व छोटा हाथी वाहन में पशुओं को कुररतापूर्वक भरकर ले जाते हुए 02 गिरफ्तार, 10 पशु बरामद

दिनांक 23-11-2022 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर भूडा गेट के पास कस्बा सैफनी से नजरूद्दीन पुत्र भूरे निवासी खंदेली थाना शाहबाद, रामपुर व अनीस पुत्र रफीक निवासी ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूण्डापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण पिकअप नम्बर यूपी 22 एटी 7692 में 02 कटरे, 04 भैसों तथा छोटा हाथी वाहन नम्बर यूपी 23 टी 6447 में 02 कटरे, 02 भैसों को कुररतापूर्वक बांधकर ले जा रहे थे। इस सम्बंध में थाना सैफनी, रामपुर पर मु0अ0सं0-157/22 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।